



V2k (आवाज़ से खोपड़ी तक) 28/03/2017

## लक्षित व्यक्ति संघ – लेखक: गैरी ओवेन्स

श्री गैरी ओवेन्स ने संकलित लेख लिखा और प्रौद्योगिकी का विश्लेषण किया, हमने प्रौद्योगिकी का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक प्रत्येक सूचना को एकत्रित करने और संकलित करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक स्रोत का उपयोग किया, हमने सूचना के स्रोतों को नीचे सूचीबद्ध किया है, यदि कोई छूट गया हो तो हमें बताएं और हम उसमें संशोधन करेंगे।

आवाज़ से खोपड़ी तक का मामला जटिल है, इसका कारण यह है कि कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया है क्योंकि यह एक चीज़ नहीं है! इसमें विभिन्न तकनीकें शामिल हैं! V2k को समझने के लिए आपको पूरा पाठ पढ़ना होगा! अच्छी खबर यह है कि इसका उत्तर वहाँ है, दिन की तरह स्पष्ट!

न्यूरोफोन और माइक्रोवेव ऑडियो प्रभाव का उपयोग आधुनिक टेलिको डेटा वितरण प्रणालियों जैसे माइक्रोवेव एमिटर बीम और प्रसारण के साथ टैडम में कैसे किया जाता है, गैंग स्टॉकिंग और आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) की चोरी में वी2के (वॉयस टू स्कल) डिवाइस के रूप में।

### न्यूरोफोन आविष्कार और पेटेंट:

1958 डॉ. पैट्रिक फ़्लैनागन ने यू.एस.ए. में न्यूरोफोन का आविष्कार किया और उसका नाम रखा, तथा न्यूरोसेप्शन द्वारा संचालित प्रक्रिया के बारे में बताया। आप यू.एस. पेटेंट कार्यालय को लिखकर और 16 जुलाई, 1968 को दिए गए पेटेंट नंबर 3,393,279 और 7 मार्च, 1972 को दिए गए पेटेंट नंबर 3,647,970 का आदेश देकर उनके दो न्यूरोफोन पेटेंट की प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।



मूल न्यूरोफोन पेटेंट संख्या 3,393,279 के अधिकार न्यूयॉर्क शहर के इंटेलेक्ट्रॉन, इंक. के पास हैं। FDA इसे बाजार में बेचने की अनुमति नहीं देगा क्योंकि इसमें कम आवृत्ति वाली RF वाहक तरंग का उपयोग किया जाता है, और वे इन दिनों RF विकिरण के जैविक प्रभावों के बारे में बहुत संवेदनशील हैं। वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने पेटेंट आवेदन को शीर्ष गोपनीयता आदेश के तहत रखा था।

पैट फ़्लैनागन एक आविष्कारक हैं। अपने मूल पेटेंट अधिकारों के साथ किसी अन्य कंपनी के हाथों में और FDA द्वारा इसके उत्पादन पर प्रतिबंध के साथ, फ़्लैनागन ने पेटेंट संख्या 3,647,970 द्वारा कवर किया गया दूसरा न्यूरोफोन उपकरण विकसित किया जो RF वाहक का उपयोग नहीं करता है और इसमें उच्च वोल्टेज शामिल नहीं है। डॉ.

फ़्लैनागन ने प्रभावशाली तकनीकी योगदान दिया है। फरवरी, 1968 में, उन्होंने मानव भाषण को डॉल्फ़िन भाषा में और इसके विपरीत अनुवाद करने के लिए एक उपकरण पर पेटेंट के लिए आवेदन किया। यह ओहू, हवाई के तट से दूर एक छोटे से द्वीप के लैगून में डॉल्फ़िन के साथ किए गए अध्ययनों का परिणाम था। एक चौकाने वाले हस्तक्षेप से पहले 30 शब्दों की शब्दावली की खोज की गई थी। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा अमेरिकी नौसेना के लिए न्यूरोफोन के पुराने संस्करणों के साथ किए गए अध्ययन 1966 में वापस जाते हैं।

यह उपकरण, दृष्टिकोण में इतना क्रांतिकारी था कि उन्होंने एक विशेष भाषण प्रोसेसर के रूप में इसके लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया। पेटेंट के लिए आवेदन करने के छह महीने बाद, NSA के कहने पर, वाणिज्य विभाग ने 28 अगस्त, 1968 को जारी गोपनीयता आदेश संख्या 756,124 के तहत फ्लैनागन के नए उपकरण को रखा। एक दर्दनाक उल्लंघन में, NSA ने पेटेंट को सील कर दिया और एक राष्ट्रीय सुरक्षा आदेश ने पैट्रिक को इस आविष्कार पर काम करने या यहाँ तक कि इसके बारे में बात करने से भी मना कर दिया। आदेश में कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आविष्कार को दबाया जा रहा था। इसमें आगे कहा गया था कि अगर उन्होंने अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि के अलावा किसी और को इसके काम करने के तरीके के बारे में बताया तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें गोली मार दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में उन्होंने इसे चुरा लिया! कहने की ज़रूरत नहीं कि वे इस व्यवस्था से बहुत निराश थे।

पांच साल बाद और लगभग 300 आविष्कारों के बाद, उनके आविष्कार को जारी करने के लिए तीन कानूनी फर्मों ने मुकदमा दायर किया, एक और कठिन कानूनी लड़ाई ने गोपनीयता और दमन आदेश को रद्द कर दिया और पेटेंट # 3,647,970 7 मार्च 1972 को प्रदान किया गया। यह भाषण प्रसंस्करण पेटेंट वास्तव में न्यूरोफोन के वर्तमान संस्करण में सर्किट के रूप में उपयोग किया जाता है।

अतः, एक विजयी अदालती मामले में, एनएसए द्वारा डिवाइस की गोपनीयता और जब्ती को खारिज कर दिया गया, और जिन्न बोटल से बाहर आ गया!



न्यूरोफोन का इस्तेमाल लोगों को निशाना बनाकर उनके विचारों को चुराने और उनके जीवन को नष्ट करने के लिए कैसे किया जाता है, यह जानकारी मूल पेटेंट में है। मुख्य बात कम आवृत्ति वाली आरएफ कैरियर वेव थी, मूल पेटेंट में यह जानकारी शामिल थी, लेकिन इसे गुप्त रखा गया था, जबकि एनएसए ने इसे 10 साल तक विकसित किया था, जब उन्होंने न्यूरोफोन के अपने दूसरे संस्करण को पेटेंट दिया, तो आरएफ कैरियर वेव के बारे में जानकारी उत्सर्जित हुई।

इसलिए जब आप किसी के दिमाग में बीमिंग की संभावना को जोड़ते हैं जो कि न्यूरोफोन है, माइक्रोवेव ऑडिटरी इफेक्ट की माइक्रोवेव बीम तकनीक के साथ जैसा कि मुझे MI6 के डॉ बैरी ट्रॉवर ने समझाया था। फ्लैनागन न्यूरोफोन इलेक्ट्रोड को इस तरह रख सकता था कि ध्वनि को केवल सिर के एक तरफ से आते हुए माना जाता था, कई लक्षित व्यक्ति इसे समझेंगे और

यह दो आउट ऑफ फेज ट्रांसड्यूसर केंद्रित माइक्रोवेव वाहक बीम के कारण होता है, जो सिर के एक ही तरफ होते हैं, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक RFID इम्प्लांट है (TIA की वेबसाइट पर RFID इम्प्लांट के विकास पर एक पूरी रिपोर्ट भी है) जो इस प्रभाव को भी उत्पन्न कर सकता है, सबसे अधिक संभावना है कि यह वही न्यूरोफोन सॉफ्टवेयर चला रहा हो।

सिर में टिनटिस जैसी तेज़ सीटी की आवाज़ आती है जिसे TI सुनता है, यह आपके सिर पर पड़ने वाला मॉड्युलेटेड आउटपुट माइक्रोवेव सिग्नल है, यह एमिटर पर लाभ है। माइक्रोवेव ऑडिटरी इफेक्ट के श्रवण लक्षणों में लगातार भिन्नभिन्नाना, क्लिक और जिसे 'कानों में बजना' कहा जाता है, शामिल हैं। यदि लंबे समय तक उपयोग किया जाता है तो शोर में ज़ोर और भिन्नता एकाग्रता की कमी, परेशानी और अत्यधिक चिड़चिड़ापन का कारण बनती है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से यातना का एक रूप है क्योंकि इसे गैंग स्टॉकर्स द्वारा उकसाया गया है और हम इसे अपने क्लास एक्शन मुकदमे में जोड़ेंगे।

वॉयस टू स्कल, मानसिक रोगियों, एलियन अपहरणकर्ताओं, चुड़ैलों और मनोरोग सिज़ोफ्रेनिया रोगियों, भगवान की आवाज़ सुनने वाले लोगों, लोगों को मारने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में लाता है क्योंकि सिर में एक आवाज़ ने उन्हें भी बताया है, जो दावा करते हैं कि वे एलियंस से बात कर सकते हैं, या भूतों से संपर्क कर सकते हैं और अक्सर शैतान के साथ संबंध बना सकते हैं। इन सभी लोगों को दुनिया की हर सरकार के खिलाफ सहस्राब्दी के मुकदमे के लिए हर नागरिक द्वारा लक्षित किया जाना चाहिए।

इस जानकारी में आधुनिक टेलीकॉम डेटा डिलीवरी सिस्टम को शामिल करें और इसे कोई भी बना सकता है! मैं जल्द ही सिस्टम को खुद बनाने के तरीके के वीडियो जोड़ूंगा, और इसमें न्यूरोफोन भी शामिल होगा

स्वयं निर्मित लिंक। लक्षित व्यक्तियों के संघ से जानकारी जारी करने का विचार यह है कि यदि जानकारी सार्वजनिक डोमेन में खुले तौर पर है, तो हम इसे प्रेस और अदालतों के सामने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो हम करने जा रहे हैं!

हमारा मानना है कि एक बार यह बात प्रचारित हो जाने पर, चयन समिति की सुनवाई के लिए बाध्य करने तथा सुरक्षा सेवाओं और अन्य संगठनों के बजट को वापस लेने के लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि उन्होंने इस पराजय का कारण बना है, तथा इस धन का उपयोग उन लक्षित व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा, जिनके जीवन और विचारों को इन अनियंत्रित सुरक्षा सेवाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया है, जो अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

वे मेसन का प्रतिनिधित्व करते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन में सुरक्षा सेवाएँ प्रतिष्ठान के लिए एक निजी मेसन सेना हैं। मेसन गैंग स्टॉकिंग के पीछे हैं, जो गंदे काम करने के लिए ड्रग डीलरों और अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं। हम उन पर मुकदमा करने जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ें।

पैट के अपने शब्दों में:

"न्यूरोफोन की कई खोजें सार्वजनिक नहीं की गईं। कई मौकों पर इस उपकरण ने एक या एक से ज़्यादा लोगों के बीच सही टेलीपैथिक संपर्क को प्रेरित किया, जिसके अक्सर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। इन टेलीपैथिक घटनाओं को उपहास के डर से गुप्त रखा गया।"

मूल न्यूरोफोन साहित्य में यह कहा गया है कि "डॉ. पैट्रिक फ्लैगनन का ब्रेन एनट्रेनमेंट के लिए क्रांतिकारी अल्ट्रासोनिक तंत्रिका उत्तेजना उपकरण।" यह ब्रेन एनट्रेनमेंट से संबंधित मन नियंत्रण प्रयोगों के लिए न्यूरोफोन के NSA/CIA के उपयोग से संबंधित एक और विषय है।

न्यूरोफोन

इसे पढ़ते समय, ध्यान रखें कि 14 वर्षीय इस लड़के ने स्टीरियो प्लेयर, मांसपेशियों को आराम देने वाली डिवाइस, टीवी पार्ट्स और टीवी एरियल से न्यूरोफोन नामक डिवाइस बनाई है। मैं इससे सहानुभूति रख सकता हूँ क्योंकि मैंने भी बचपन में इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग किया और चीजें बनाईं। हालाँकि इस मामले में नतीजा यह हुआ कि जब उसने डिवाइस का आविष्कार किया, तो सेना ने पेटेंट रोक दिया। अब हम जानते हैं कि DARPA ने कई अन्य संगठनों के साथ मिलकर इसे अपनाया। लड़का खुद अपने आविष्कार के नए संस्करणों के साथ नेवल इंटेलिजेंस के लिए काम करेगा, उसने न्यूरोफोन सिस्टम का इस्तेमाल इंसानों को डॉल्फिन से बात करने की अनुमति देने के लिए किया,

नौसेना इसका उपयोग बारूदी सुरंगों की पहचान के प्रशिक्षण, विस्फोटक लगाने और उन्हें निकालने के लिए कर रही थी।

न्यूरोफोन अपने वर्तमान स्वरूप में वॉयस टू स्कल का एक तत्व है, मूल पेटेंट में उत्तर छिपा हुआ था, और वास्तव में शुरुआत में पेटेंट को अस्वीकार करने का कारण यही था, हालांकि बाद में यह स्पष्ट हो गया कि एनएसए ने इसके प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। 12 साल बाद उन्हें उसी डिवाइस पर पेटेंट की अनुमति दी गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ। अंतर V2k का दूसरा भाग था, वॉयस टू स्कल जिसे माइक्रोवेव ऑडियो इफ़ेक्ट कहा जाता है, जिसे श्रवण नहर, कोक्लीयर में माइक्रोवेव के एक केंद्रित बीम के रूप में भेजे गए आरएफ संकेतों का उपयोग करके किया जाता था। जैसा कि 1969 में किया गया था और मुझे MI6 (वैज्ञानिक नहीं एजेंट) के डॉ बैरी ट्रॉवर द्वारा समझाया गया था।

आविष्कारक डॉ. पैट्रिक फ्लैगनन के शब्द ये हैं:

1958 में डॉ. पैट्रिक फ्लैगनन ने बेलेयर, टेक्सास, यू.एस.ए. में न्यूरोफोन का आविष्कार किया। वह 14 साल का था। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सामान्य श्रवण को दरकिनार करते हुए त्वचा के माध्यम से ध्वनि संचारित करता है। एक पारिवारिक मित्र जो शेल ऑयल के लिए पेटेंट वकील था, ने पैट्रिक को पेटेंट आवेदन जमा करने में मदद की। पेटेंट परीक्षकों ने सोचा कि यह सिर्फ अस्थि चालन के माध्यम से ध्वनि स्थानांतरण है और 12 साल तक पेटेंट जारी करने से इनकार कर दिया।



1970 में एक दुर्लभ बैठक में, पेटेंट कार्यालय ने न्यूरोफोन की स्वयं जांच करने और पैट्रिक और उनके वकील से मिलने पर सहमति जताई। उन दोनों को एक आश्चर्य का सामना करना पड़ा।

परीक्षक ने डिवाइस का परीक्षण करने के लिए बैठक में एक बधिर कर्मचारी को शामिल किया। वह व्यक्ति एक कान से पूरी तरह से बहरा था और दूसरे कान से लगभग पूरी तरह से बहरा था। पैट्रिक ने उसे न्यूरोफोन का उपयोग करना सिखाया और प्रसिद्ध मारिया कैलास का ओपेरा गाते हुए रिकॉर्ड चलाया। जब वह उसकी आवाज़ की अविश्वसनीय सुंदरता को सुनने में सक्षम हुआ, तो उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह निकले।

जब हम न्यूरोफोन के माध्यम से संगीत या मानवीय भाषण सुनते हैं तो हम दो अलग-अलग चैनलों के माध्यम से ध्वनि सुनते हैं। एक चैनल को सामान्य रूप से कानों द्वारा कोक्लीया के माध्यम से सुना जाता है और दूसरा चैनल त्वचा और/या हड्डी के माध्यम से सैक्यूल तक भेजा जाता है। न्यूरोफोन सुनते समय कानों को बंद करके सुनने के दो तरीकों के बीच अंतर आसानी से बताया जा सकता है। न्यूरोफोन सामान्य सुनवाई को बायपास करता है जो हड्डी के चालन के माध्यम से कोक्लीया तक पहुंचाई जाती है, न्यूरोफोन 40 KHz अल्ट्रासोनिक वाहक तरंग कोक्लीया को बायपास करती है और सैक्यूल में श्रवण चैनलों को सक्रिय करती है।

## न्यूरोफोन कैसे काम करता है:


न्यूरोफोन एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीपैथी मशीन है।

न्यूरोफोन सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एक सीडी प्लेयर, एमपी 3, एक रेडियो, या एक स्टीरियो HI Fi सिस्टम हो सकता है, आप मिक्सिंग डेस्क और प्रभाव के साथ एक माइक्रोफोन का उपयोग भी कर सकते हैं, अभी तक किसी भी घंटी बजाना! न्यूरोफोन को हेडफोन या स्पीकर आउटपुट जैक से चलाया जाना चाहिए।

न्यूरोफोन का उपयोग करते समय, आप आमतौर पर संगीत के ध्वनि स्तर को मशीन के अंतर्निर्मित लाउडस्पीकर के माध्यम से सुनने के लिए आरामदायक स्तर पर समायोजित करते हैं।

फिर आप मिनी प्लग को प्लेयर के ईयरफोन जैक में प्लग करें, और स्टैंडर्ड फोन प्लग को न्यूरोफोन के इनपुट जैक में प्लग करें। इलेक्ट्रोड फोन प्लग को न्यूरोफोन आउटपुट जैक में प्लग करें। न्यूरोफोन वॉल्यूम कंट्रोल को धीरे-धीरे क्लॉकवाइज़ घुमाएँ। कंट्रोल पर स्विच यूनिट को चालू कर देगा। इस समय छोटा एलईडी पैनल लैंप चमकना चाहिए। धीरे-धीरे कंट्रोल को तब तक चालू करें जब तक कि आप न्यूरोफोन इलेक्ट्रोड के माध्यम से अपने प्लेयर से संगीत सुनना शुरू न कर दें।

अपने शोध के परिणामस्वरूप, डॉ. फ्रैनागन ने आदर्श ध्यान वातावरण तैयार किया है। यह वातावरण विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण (फ़ैराडे केज) से सुरक्षित एक विशेष कमरा है। इस कमरे में ये रखे गए हैं: एक ERG (पृथ्वी अनुनाद जनरेटर), आयन जनरेटर (सावधानी-कुछ आयन जनरेटर प्रदूषण भी पैदा करते हैं), एक 8HZ स्पंदित उच्च वोल्टेज क्षेत्र (ERG से सिंक), और एक न्यूरोफोन।



कई परीक्षणों से यह साबित होता है कि यह आठवीं कपाल तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका को बायपास करता है, और ध्वनि को सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इसका मतलब है कि न्यूरोफोन सातवीं या वैकल्पिक इंद्रिय के माध्यम से धारणा को उत्तेजित करता है।

अब हम जानते हैं कि त्वचा अल्ट्रासोनिक आवेगों को आंतरिक कान में स्थित एक अंग तक पहुंचाती है जिसे अल्ट्रासोनिक आवेग कहा जाता है।

सैक्यूल (तंत्रिकाओं का समूह जो अन्य चीजों के अलावा आंतरिक कान में आपके सिर की गति को नियंत्रित करता है) के रूप में। त्वचा अल्ट्रासोनिक (40 KHz) के साथ प्रतिध्वनि में कंपन करती है।

न्यूरोफोन ने वाहक तरंग को संशोधित किया और वाहक से ध्वनि को कई चैनलों के माध्यम से मस्तिष्क में संचारित किया। सुनने की प्रक्रिया कोक्लीया तक अस्थि चालन के माध्यम से संचालित की जाती है। अस्थि चालन के काम करने के लिए, सैक्यूल को सक्रिय करने के लिए 40 kHz अल्ट्रासोनिक वाहक तरंग की आवश्यकता होती है। जब न्यूरोफोन ट्रांसड्यूसर जुड़े होते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वाहक तरंग कोक्लीया को बायपास करती है और सैक्यूल में श्रवण चैनलों को सक्रिय करती है।

कोक्लीअ या आंतरिक कान, जो आठवीं कपाल तंत्रिका से जुड़ता है, को सबसे पहले कार्य करना चाहिए।


जो लोग तंत्रिका-बधिर हैं, वे अस्थि चालन के माध्यम से नहीं सुन सकते हैं क्योंकि आंतरिक कान में तंत्रिकाएँ कार्यात्मक नहीं हैं। अस्थि चालन की प्रक्रिया में, ध्वनियाँ अस्थि कंकाल संरचनाओं के माध्यम से आंतरिक कान तक प्रेषित होती हैं, जहाँ कान के परदे द्वारा सामान्य रूप से कंपन करने वाली छोटी हड्डियाँ कंकाल कंपन द्वारा सक्रिय होती हैं। यह कंपन तब आंतरिक कान द्वारा एनकोड किया जाता है, और 8वीं कपाल तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक प्रेषित होता है।

अगर न्यूरोफोन इलेक्ट्रोड को बंद आँखों या चेहरे पर रखा जाए, तो ध्वनि को स्पष्ट रूप से 'सुना' जा सकता है, जैसे कि वह मस्तिष्क के अंदर से आ रही हो। जब इलेक्ट्रोड को चेहरे पर रखा जाता है, तो ध्वनि को ट्राइजेमिनल तंत्रिका के माध्यम से सुना जाता है।

इसलिए हम जानते हैं कि न्यूरोफोन ट्राइजेमिनल या चेहरे की तंत्रिका के माध्यम से काम कर सकता है। जब चेहरे की तंत्रिका को एनेस्थेटिक इंजेक्शन के माध्यम से सुन्न कर दिया जाता है, तो हम चेहरे से सुन नहीं सकते। इन मामलों में, चेहरे की त्वचा सुन्न होने पर एक महीन रेखा होती है। यदि इलेक्ट्रोड को सुन्न त्वचा पर रखा जाता है, तो हम इसे सुन नहीं सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रोड को त्वचा पर एक इंच के अंश पर ले जाया जाता है, जिसमें अभी भी संवेदना है, तो ध्वनि धारणा बहाल हो जाती है और व्यक्ति सुन सकता है!

इसलिए जब आप इसे कवर करने वाले क्षेत्रों में से एक को लक्षित करते हैं, तो वे किरणों की एक त्रिकोणीय प्रणाली का उपयोग करते हैं ताकि आप इसे कवर कर सकें और मात्रा में गिरावट को नोटिस कर सकें, फिर जैसे ही किरण ट्रेक इसमें वापस आती है।

इससे यह साबित होता है कि न्यूरोफोन के माध्यम से ध्वनि धारणा का साधन त्वचा के माध्यम से है न कि हड्डी चालन के माध्यम से। हमें यकीन है कि न्यूरोफोन एक अन्य जैविक चैनल का उपयोग करता है, इस तथ्य के कारण कि 8वीं कपाल तंत्रिका क्षति वाले लोग डिवाइस के साथ सुनते हैं।



त्वचा हमारा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। रक्षा की पहली पंक्ति होने के अलावा संक्रमण के खिलाफ, त्वचा एक विशाल लिक्विड क्रिस्टल मस्तिष्क है। त्वचा पीजो-इलेक्ट्रिक है। जब इसे कंपन या रगड़ा जाता है, तो यह स्केलर तरंगों के रूप में विद्युत संकेत उत्पन्न करती है। हर संवेदी अंग त्वचा से विकसित हुआ है। जब हम भ्रूण होते हैं, तो हमारी संवेदी अंग त्वचा की परतों से विकसित होते हैं। कई आदिम जीव और जानवर अपनी त्वचा से देख और सुन सकते हैं।

अब हम जानते हैं कि त्वचा अल्ट्रासोनिक आवेगों को आंतरिक कान में स्थित एक अंग तक पहुंचाती है जिसे सैक्यूल के नाम से जाना जाता है। त्वचा अल्ट्रासोनिक (40 KHz) न्यूरोफोन मॉड्युलेटेड वाहक तरंग के साथ प्रतिध्वनि में कंपन करती है और वाहक से ध्वनि को कई चैनलों के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचाती है।

जब न्यूरोफोन को मूल रूप से विकसित किया गया था, तो न्यूरो-फिजियोलॉजिस्ट मानते थे कि मस्तिष्क हार्ड-वायर्ड है और विभिन्न कपाल तंत्रिकाएँ हर संवेदी प्रणाली से हार्ड-वायर्ड हैं। आठवीं कपाल तंत्रिका वह तंत्रिका बंडल है जो आंतरिक कान से मस्तिष्क तक जाती है। सैद्धांतिक रूप से, हमें अपने कानों से तभी सुनना चाहिए जब हमारे संवेदी अंग हार्ड-वायर्ड हों।

होलोग्राफिक मस्तिष्क सिद्धांत कहता है कि मस्तिष्क एक होलोग्राफिक एन्कोडिंग सिस्टम का उपयोग करता है ताकि पूरा मस्तिष्क एक बहुआयामी संवेदी एन्कोडिंग कंप्यूटर के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। इसका मतलब है कि सुनने जैसी संवेदी छापों को इस तरह से एन्कोड किया जा सकता है कि मस्तिष्क का कोई भी हिस्सा एक विशेष प्रकार के सिग्नल कोडिंग के अनुसार इनपुट सिग्नल को पहचान सके। सैद्धांतिक रूप से, हमें केवल अपनी आँखों और कानों से ही नहीं बल्कि कई चैनलों के माध्यम से देखने और सुनने में सक्षम होना चाहिए।

न्यूरोफोन की कुंजी त्वचा की नसों को डिजिटल रूप से कोडित संकेत के साथ उत्तेजित करना है, जो उसी समय-अनुपात कोड को वहन करता है जिसे शरीर में किसी भी तंत्रिका द्वारा ध्वनि के रूप में पहचाना जाता है।

सभी वाणिज्यिक डिजिटल स्पीच रिकनिशन सर्किटरी तथाकथित प्रमुख आवृत्ति शक्ति विश्लेषण पर आधारित है। जबकि भाषण को ऐसे सर्किट द्वारा पहचाना जा सकता है, सच्चाई यह है कि स्पीच एन्कोडिंग समय अनुपात पर आधारित है। यदि आवृत्ति शक्ति विश्लेषण सर्किट सही ढंग से चरणबद्ध नहीं हैं, तो वे काम नहीं करेंगे। बुद्धिमत्ता (ध्वनि सहित) चरण सूचना द्वारा संचालित होती है।

आवाज़ की आवृत्ति सामग्री हमारी आवाज़ को एक निश्चित गुणवत्ता देती है, लेकिन आवृत्ति नहीं



जानकारी शामिल है। कंप्यूटर वॉयस रिकग्निशन और वॉयस जेनरेशन के सभी प्रयास केवल आंशिक रूप से सफल होते हैं। जब तक डिजिटल टाइम-रेशियो एनकोडिंग का उपयोग नहीं किया जाता, तब तक हमारे कंप्यूटर कभी भी हमसे बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम न्यूरोफोन का उपयोग कर सकते हैं ताकि हम कंप्यूटर से बात कर सकें, यह निश्चित रूप से अगले कुछ वर्षों में आएगा।



फ्लैनागन ने मानव-डॉल्फिन संचारक के लिए भाषण पहचानने हेतु जो कंप्यूटर विकसित किया था, उसमें केवल समय-अनुपात विश्लेषण का उपयोग किया गया था।

समय-अनुपात एनकोडिंग को पहचान कर और उसका उपयोग करके, हम अत्यंत संकीर्ण बैंडविड्थ के माध्यम से स्पष्ट ध्वनि डेटा संचारित कर सकते हैं।

एक डिवाइस में, हमने एक रेडियो ट्रांसमीटर विकसित किया जिसमें क्रिस्टल क्लियर ट्रांसमिशन बनाए रखते हुए केवल 300 हर्ट्ज की बैंडविड्थ थी। चूंकि सिग्नल-टू-शोर अनुपात बैंडविड्थ विचारों पर आधारित है, इसलिए हम मिलीवाट पावर का उपयोग करते हुए हजारों मील तक स्पष्ट आवाज संचारित करने में सक्षम थे।


बेहतर सिग्नल-प्रोसेसिंग एल्गोरिदम न्यूरोफोन की एक नई श्रृंखला का आधार हैं जो वर्तमान में विकास के अधीन हैं। ये नए न्यूरोफोन ध्वनि सूचना को अधिक स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं।

## हमारी त्वचा:

त्वचा भ्रूणीय रूप से सभी विशेष इंद्रियों का स्रोत है। हमारी त्वचा में मानव शरीर रचना के किसी भी अन्य भाग की तुलना में गर्मी, स्पर्श और दर्द के लिए अधिक संवेदक होते हैं। मानव कान भ्रूणीय रूप से माँ के गर्भाशय में भ्रूण की त्वचा के घुमावों से विकसित होता है।

मूल रूप से, त्वचा सबसे पुराना विकासवादी तंत्रिका तंत्र संवेदक है। इसलिए, चूंकि त्वचा कानों की अग्रदूत है, इसलिए उसे सुनने में भी सक्षम होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसे 8वीं कपाल तंत्रिका के अलावा किसी अन्य माध्यम से सुनने की भावना को मस्तिष्क तक पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए।

इसकी त्वचा पीजो-इलेक्ट्रिक और ऑप्टो-इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार की है।



जब त्वचा को विद्युत या फोटॉन क्षेत्र द्वारा उत्तेजित किया जाता है, तो यह कंपन करती है। जब इसे कंपन किया जाता है या रगड़ा जाता है, तो यह त्वचा में बनने वाले स्केलर तरंगों के रूप में विद्युत संकेत उत्पन्न करती है।


न्यूरोफोन वास्तव में एक स्केलर वेव उपकरण है, क्योंकि इलेक्ट्रोड से आने वाले चरण-बाह्य संकेत त्वचा के परावैद्युत क्षेत्र की गैर-रैखिक जटिलताओं में मिश्रित हो जाते हैं।

शोध से पता चलता है कि त्वचा में ही अनुभूति के सभी कार्य करने की अव्यक्त क्षमता होती है। यदि त्वचा को यांत्रिक रूप से उत्तेजित किया जाता है, तो यह अपने स्वयं के विद्युत और फोटॉन क्षेत्र उत्पन्न करेगी जो स्थायी स्केलर तरंगों के रूप में होती है। रूस में, अंधे लोगों को अपनी उंगलियों से देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और चेकोस्लोवाकिया में, बहरे लोगों को इस प्रभाव के कारण अपनी उंगलियों से सुनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उंगलियों में शरीर के किसी भी हिस्से की तुलना में अधिक पैसिनियन कॉर्पसकल (पीसी) होते हैं।

इसलिए न्यूरोफोन में पीजी-इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड/ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से दो 180 डिग्री चरणबद्ध शिफ्टेड इलेक्ट्रोड हैं, ध्वनि 180 डिग्री चरणबद्ध शिफ्टेड सूचना द्वारा ले जाई जाती है। ट्रांसड्यूसर जिंकोनियम टाइटेनेट से बने होते हैं जो ऐक्रेलिक प्लास्टिक टाइलों में एम्बेडेड होते हैं ताकि त्वचा से मेल खाने के लिए अधिकतम प्रतिबाधा प्रदान की जा सके।

न्यूरोफोन की कुंजी त्वचा की नसों को डिजिटल रूप से कोडित संकेत के साथ उत्तेजित करना है, जो उसी समय-अनुपात कोड को वहन करता है जिसे शरीर में किसी भी तंत्रिका द्वारा ध्वनि के रूप में पहचाना जाता है।

पैसिनियन कॉर्पसकल:





त्वचा में कई ऊर्जा संवेदन तंत्र होते हैं, ऐसे ही एक तंत्र को पैसिनियन कॉर्पसकल (पीसी) के रूप में जाना जाता है। पीसी एक विशेष तंत्रिका अंत है जो यांत्रिक कंपन या दबाव को तंत्रिका आवेगों में बदल देता है।

1980 तक ट्रांसड्यूसर के बारे में बहुत कम जानकारी थी, और यह माना जाता था कि यह उपकरण केवल उत्तेजना की निम्न आवृत्तियों पर ही काम कर सकता है।

मिलान, इटली के फर्नांडो ग्रैंडोरी और एंटोनियो पेडोटी द्वारा हाल ही में किए गए शोध ने इस तंत्र पर पूरी तरह से नई रोशनी डाली है। (वॉल्यूम बीएमई-27, #10, अक्टूबर 1980) अब ऐसा लगता है कि आईईईई लेनदेन पर जैवचिकित्सा अभियांत्रिकी, पीसी बहुत उच्च आवृत्तियों पर

प्रतिक्रिया कर सकता है, और एक वर्ग तरंग उत्तेजना के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया करता है।





पीसी में एक संवेदनशील तंत्रिका अंत होता है जो एक बेलनाकार-जैसी कोर संरचना से घिरा होता है जिसमें लैमेली नामक बारीकी से पैक की गई झिल्लियाँ होती हैं। कोर लैमेली के दूसरे सेट से घिरा होता है, जिसमें प्रत्येक के बीच की दूरी सबसे भीतरी लैमेली से लेकर कॉर्पसकल की परिधि की ओर बढ़ती है। सभी लैमेली के बीच का स्थान एक तरल से भरा होता है जिसके यांत्रिक गुणों को पानी के समान माना जा सकता है। जब उचित दबाव डालने से सबसे बाहरी लैमेली का विस्थापन होता है, तो यह उत्तेजना कोर तक पहुँचती है, और बदले में, सबसे भीतरी लैमेली के संपीड़न का कारण बनती है। यह प्रणाली एक विभेदक यांत्रिक प्रवर्धक के रूप में कार्य करती है।

यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि PC स्क्वायर-वेव पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया करता है। परीक्षणों से पता चलता है कि परिवर्तन की दर कणिका पर लगाए गए दबाव के आयाम से अधिक महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि यह अत्यधिक परिष्कृत रिसेप्टर पहले समय महत्व और फिर दबाव महत्व का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अगर हम न्यूरोफोन इलेक्ट्रोड डिस्क लें और उन्हें मंदिरों पर रखते हुए उनमें 50 वोल्ट साइन वेव ऑडियो सिग्नल फीड करें, तो सिग्नल कमजोर रूप से माना जाएगा। अगर हम उसी सिग्नल को स्क्वायर वेव के रूप में फीड करते हैं, तो माना जाने वाला सिग्नल साइन वेव से 10 गुना ज़्यादा तेज़ होगा। यह डॉ. फ़्लैनागन के न्यूरोफोन अवधारणात्मक तंत्र के बारे में सिद्धांत को प्रमाणित करता है कि यह समय-दर-परिवर्तन एन्कोडेड है।

पीसी पूरी त्वचा की सतह पर स्थित होते हैं, तथा उंगलियों और यौन अंगों पर इनकी अधिक सांद्रता होती है।

**न्यूरोफोन तंत्रिका तंत्र से किस प्रकार संबंधित है:**

आइए अब तंत्रिका तंत्र पर लागू 30 KHZ वाहक साइन तरंग का विश्लेषण करें और देखें कि तंत्रिका तंत्र क्या देखता है। साइन तरंग वक्र के साथ एक बिंदु पर क्लिप की जाती है और क्लिप की गई तरंग के शीर्ष की चौड़ाई 15 usec है। अब, यदि इस समय तंत्रिका तंत्र में लगभग 15 usec का CRT (क्रिटिकल रिएक्शन टाइम) है, तो सही लोडिंग होगी।

अब, यदि इस समय तंत्रिका तंत्र का CRT 20 यूसेक में बदल जाए, तो समान प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए वाहक को 25 KHz पर स्थानांतरित करना होगा। CRT में यह वृद्धि यह संकेत देगी कि व्यक्ति कोलिनर्जिया की स्थिति में चला गया है। न्यूरोन का नया CRT अब न्यूरोन को 30 KHz पर अनुचित रूप से लोड करेगा, लेकिन 25 KHz पर ठीक से लोड करेगा।

मूल उपकरण में 3000 वोल्ट सिग्नल की वाहक आरएफ तरंग थी जो बेहद कम शक्ति घनत्व का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती थी। चूंकि वाहक आवृत्ति 50 किलोहर्ट्ज के आसपास थी, और इसलिए इलेक्ट्रोड की धारिता बेहद कम थी। कम शक्ति घनत्व की उपरोक्त विद्युत स्थितियों से संकेत मिलता है कि मूल उपकरण उपयोग के लिए सुरक्षित था। हालाँकि, यदि इलेक्ट्रोड सतहों को खरोंच दिया जाता है, तो उपयोगकर्ता को हल्का, लेकिन कष्टप्रद हल्का बिजली का झटका लगेगा।


वर्तमान न्यूरोफोन एमके XI का विकास, जो आज तक का सबसे बेहतरीन न्यूरोफोन है,

और इसमें रेडियो आवृत्ति वाहक तरंग के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। नए संस्करणों में एक विद्युत क्षेत्र (लगभग 20 वोल्ट आरएमएस) होता है जो त्वचा में आणविक कंपन बनाने के लिए त्वचा सिरैमिक इलेक्ट्रोड संयोजन के साथ संपर्क करता है। 20 वोल्ट औसत आरएमएस सिग्नल को काम करने के लिए रेडियो वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, मूल न्यूरोफोन डिजाइन को वास्तव में क्रूर बल द्वारा काम करना पड़ा था, इस तथ्य के कारण कि मॉड्यूलेशन सिग्नल को समय डोमेन सिग्नल गुणों को बढ़ाने के लिए संसाधित नहीं किया गया था। जैसा कि पहले बताया गया है, मूल न्यूरोफोन ने 50000 हर्ट्ज की वाहक आवृत्ति पर 3000 के क्रम में विशिष्ट वोल्टेज का उत्पादन किया। चूंकि त्वचा पीजो-इलेक्ट्रिक है, और इसमें 12000 हर्ट्ज की सीमा में एक ढांकता हुआ स्थिरांक है, न्यूरोफोन इलेक्ट्रोड एक सिरैमिक सामग्री से बने होते हैं जो त्वचा को अधिकतम प्रतिबाधा मिलान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

न्यूरोफोन समय संसाधित संकेत को फिर उच्च परावैद्युत स्थिरांक वाले सिरैमिक इलेक्ट्रोड की जोड़ी में भेजा जाता है, जिन्हें सिर की त्वचा के संपर्क में रखा जाता है।

विद्युत क्षेत्र (लगभग 20 वोल्ट आरएमएस) त्वचा सिरैमिक इलेक्ट्रोड संयोजन के साथ परस्पर क्रिया करके त्वचा में आणविक कंपन पैदा करता है।

उन्होंने तर्क दिया कि सूचना का सच्चा वाहक ट्रांसफॉर्मर के संयुक्त सर्किट और इलेक्ट्रोड और मानव शरीर द्वारा बनाए गए समानांतर ट्यूंड सर्किट के शॉक उत्तेजना द्वारा उत्पन्न दोलन के कारण एक रेडियो सिग्नल था। उन्होंने अपने स्वयं के डिजाइन के एक उच्च आवृत्ति ऑसिलेटर का उपयोग करके इकाई के साथ प्रयोग करना शुरू किया और सर्किट में प्रति सेकंड लगभग 40,000 चक्रों की प्रतिध्वनि की खोज की।



उन्होंने जल्द ही पाया कि भावनाओं और सामान्य शारीरिक परिवर्तनों के साथ अनुनाद आवृत्ति अचानक बदल जाएगी। इलेक्ट्रोड की धारिता, इसलिए त्वचा का ढांकता हुआ स्थिरांक, थोड़ी सी भी बाहरी उत्तेजना से अचानक बदल जाता है। त्वचा का ढांकता हुआ स्थिरांक एक सेकंड के अंश में कई क्रमों के परिमाण से बदल जाएगा! मापदंडों के प्रारंभिक माप के बाद, मैंने मूल न्यूरोफोन डिज़ाइन किया, जिसे डिवाइस पर मेरे पेटेंट में दर्शाया गया है। (#3,393,279)। यह डिवाइस अनिवार्य रूप से कम शक्ति का एक उच्च वोल्टेज आवृत्ति मॉड्युलेटेड रेडियो ट्रांसमीटर था। इसकी आवृत्ति अनुनाद के परिवर्तनों को सही करने के लिए समायोज्य थी। मूल इकाई हाथ से समायोज्य थी। बाद की इकाइयों को अधिकतम अनुनाद के लिए स्वचालित रूप से ट्यून किया गया था।

अनुनाद रेडियो वाहक तरंग के जुड़ने से अंतर पैदा हुआ। डिवाइस से आने वाली ध्वनि शानदार थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। कान की सामान्य आवृत्ति प्रतिक्रिया सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ गई थी और कोई विकृति नहीं थी।

इस तरह के विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आयाम या आवृत्ति मॉड्यूलेशन के माध्यम से मॉड्यूलेशन को उपयुक्त रूप से प्रभावित किया जा सकता है। इन तरंगों की आवृत्ति अधिमानतः लगभग 20 किलोसाइकिल प्रति सेकंड से लेकर लगभग 200 किलोसाइकिल प्रति सेकंड तक होती है। मॉड्युलेटेड विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्रोत का आउटपुट अधिमानतः कम से कम लगभग 1 वाट होता है, जहाँ फ्रीक्वेंसी जनरेटर में किसी व्यक्ति के सिर पर रखे गए इंसुलेटेड इलेक्ट्रोड की एक जोड़ी शामिल होती है।


## होलोग्राफिक ध्वनि:

डॉल्फिन प्रोजेक्ट में प्रलैनागन ने कई संभावित नई तकनीकों के लिए आधार विकसित किया। हम भाषण बुद्धि पैटर्न को डिकोड करने के लिए मानव मस्तिष्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले एन्कोडिंग तंत्र का पता लगाने में सक्षम थे, और तीन आयामी अंतरिक्ष में ध्वनि स्रोतों का पता लगाने के लिए मस्तिष्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंत्र को भी डिकोड करने में सक्षम थे।


इन खोजों से 3-डी होलोग्राफिक ध्वनि प्रणाली का विकास हुआ, जो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि को अंतरिक्ष में किसी भी स्थान पर रख सकती है। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह से भेजा जाएगा कि ध्वनि हवा से आती हुई प्रतीत होगी! मानव कान लगभग 16,000 हर्ट्ज (कंपन, स्पंदन या प्रति सेकंड चक्र) तक सीमित है, जबकि डॉल्फिन 250,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि उत्पन्न और सुन सकती हैं। हमारे विशेष न्यूरोफोन ने हमें डॉल्फिन की आवाजों की पूरी श्रृंखला सुनने में सक्षम बनाया।

जब उनका डिजिटल न्यूरोफोन पेटेंट आवेदन पेटेंट कार्यालय में भेजा गया, तो एनएसए ने इसे गोपनीयता आदेश के तहत चिपका दिया। वह अगले पांच वर्षों तक डिवाइस पर काम करने या किसी से इसके बारे में बात करने में असमर्थ था। यह बहुत निराशाजनक था। पहला पेटेंट प्राप्त करने में बारह साल लग गए और अब, उनके सभी काम के बाद, उनका काम राष्ट्रीय सुरक्षा आदेश में बंद हो गया है।

ORDINARY RADIO AND TV SIGNALS USE A SMOOTH WAVE FORM CALLED A 'SINE' WAVE, SHOWN BELOW. THIS SMOOTH SINE WAVE SIGNAL CANNOT NORMALLY PENETRATE THE 'VOLTAGE GRADIENT' ACROSS NERVE CELL WALLS



RADAR SIGNALS CONSIST OF VERY SHORT AND POWERFUL PULSES OF SINE WAVE SIGNAL,



... AND THESE SHORT PULSES CAN PENETRATE THE STEEP VOLTAGE GRADIENT ACROSS NERVE CELL WALLS. THIS WAS MADE PUBLIC BY G.E. SCIENTIST ALLAN H. FREY AT CORNELL UNIVERSITY IN 1962.


NA SA, DOD, AND EPA HAVE PUBLISHED REPORTS WHICH DECLARE THAT WORD COMMUNICATION BY THIS METHOD IS AN ESTABLISHED TECHNOLOGY.

DIFFERENCES IN OSMOSIS OF IONS (DISSOLVED SALT COMPONENTS) CAUSE A SMALL VOLTAGE DIFFERENCE ACROSS CELL WALLS

WHEN A SMALL VOLTAGE APPEARS ACROSS A VERY TINY DISTANCE, THE CHANGE IN VOLTAGE IS CALLED VERY 'STEEP' AND THIS STEEP 'GRADIENT' IS WHAT KEEPS NORMAL RADIO SIGNALS FROM THROWING US INTO CONVULSIONS.

\*THE FIRST UN-CLASSIFIED SUCCESSFUL TRANSMISSION OF THE HUMAN VOICE DIRECTLY INTO THE SKULL OF A LIVING PERSON WAS PERFORMED BY DR. JOSEPH C. SHARP OF THE WALTER REED ARMY INSTITUTE OF RESEARCH IN **1974**.

BY CONVERTING A HYPNOTIST'S VOICE INTO THE ULTRASOUND RANGE USING A MODIFIED TELEPHONE VOICE CHANGER, IT IS POSSIBLE TO HYPNOTIZE A TARGET WITHOUT THE TARGET BEING AWARE, FROM HIDING, LEAVING ZERO TRACE EVIDENCE.



## RADIO SIGNALS VS. NERVE CELLS

<http://www.raven1.net/v2skull.gif> ...o.c... <http://www.bestnet.org/~raven1/v2skull.gif>

Jan 19/00

इस चित्र पर दी गई जानकारी सटीक है, सिवाय V2k तिथि के, जो कि फ्लैगनन द्वारा 1958 बताई गई थी।

डिजिटल न्यूरोफोन ध्वनि तरंगों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है जो मानव मस्तिष्क द्वारा समझे जाने वाले समय अनुपात कोड से मेल खाता है। इन समय संकेतों का उपयोग न केवल भाषण पहचान में बल्कि 3-डी अंतरिक्ष में ध्वनियों के स्थान को पहचानने में भी किया जाता है। डिजिटल न्यूरोफोन वह संस्करण है जिसे उन्होंने अंततः मार्क XI और थिंकमैन मॉडल 50 संस्करणों के रूप में निर्मित और बेचा। ये न्यूरोफोन अपनी एनट्रेनमेंट दक्षता के कारण गति सीखने वाली मशीनों के रूप में विशेष रूप से उपयोगी थे।


पहला न्यूरोफोन उपकरण दो ब्रिलो पैड को इंसुलेटेड कॉपर वायर से जोड़कर बनाया गया था। पैड से तारों को एक रिवर्स ऑडियो आउटपुट ट्रांसफॉर्मर से जोड़ा गया था जो कि

हाई-फाई एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ है। ऑडियो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज लगभग 1,500 वोल्ट पीक-टू-पीक था। ध्वनि सुनते समय, सिग्नल को सबसे तेज़ और स्पष्ट माना जाता था जब एम्पलीफायर को ओवर-ड्राइव किया जाता था और स्क्वायर वेव उत्पन्न होते थे। उसी समय, ट्रांसफॉर्मर 40-50 kHz की आवृत्तियों पर एक नम तरंग रूप के साथ बजता या दोलन करता था।

अगले न्यूरोफोन में एक परिवर्तनीय आवृत्ति वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर शामिल था जो आयाम-मॉड्यूलेटेड था। इस आउटपुट सिग्नल को फिर एक उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में डाला गया जो 20-100kHz रेंज में आवृत्ति प्रतिक्रिया में फ्लैट था। इलेक्ट्रोड को सिर पर रखा गया था और ऑसिलेटर को इस तरह से ट्यून किया गया था कि टैंक सर्किट के एक हिस्से के रूप में मानव शरीर का उपयोग करके अधिकतम अनुनाद प्राप्त किया जा सके।

बाद के मॉडलों में एक फीडबैक तंत्र था जो अनुनाद के लिए आवृत्ति को स्वचालित रूप से समायोजित करता था।

हमने पाया कि मानव त्वचा का परावैद्युत स्थिरांक अत्यधिक परिवर्तनशील है। ऊर्जा के अधिकतम हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए, श्रोता के शरीर की गतिशील परावैद्युत प्रतिक्रिया से मेल खाने के लिए इकाई को प्रतिध्वनि में वापस लाना पड़ा। 2,000 वोल्ट पीक-टू-पीक एम्पलीट्यूड-मॉड्यूलेटेड वाहक तरंग को फिर दो इंच व्यास वाले इलेक्ट्रोड डिस्क के माध्यम से शरीर से जोड़ा गया था जो अलग-अलग मोटाई की माय-एआर फिल्मों के माध्यम से इन्सुलेट किए गए थे। न्यूरोफोन वास्तव में एक स्केलर वेव डिवाइस है क्योंकि इलेक्ट्रोड से आउट-ऑफ-फेज सिग्नल गैर-रैखिक में मिश्रित होते हैं



Carrier and information signals 180 degrees different in phase

त्वचा परावैद्युत की जटिलताएँ.

इस छवि की कल्पना दो इलेक्ट्रोड या ट्रांसड्यूसर या दो माइक्रोवेव केंद्रित किरणों के रूप में करें!

प्रत्येक संधारित्र इलेक्ट्रोड से संकेत 180 डिग्री आउट-ऑफ-फेज़ होते हैं। प्रत्येक संकेत शरीर के जटिल ढांकता हुआ भाग में संचारित होता है जहाँ चरण निरस्तीकरण होता है। शुद्ध परिणाम एक स्केलर वेक्टर है। यह तथ्य उस समय ज्ञात नहीं था जब उन्होंने उपकरण का आविष्कार किया था। यह ज्ञान बाद में तब आया जब हमें पता चला कि मानव तंत्रिका तंत्र स्केलर संकेतों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। उच्च आवृत्ति आयाम-मॉड्यूलेटेड न्यूरोफोन में उत्कृष्ट ध्वनि स्पष्टता है।

यह संकेत बहुत स्पष्ट रूप से सिर के अंदर से आ रहा था। हमने बहुत पहले ही यह स्थापित कर लिया था कि कुछ पूरी तरह से तंत्रिका-बधिर लोग भी इस उपकरण से सुन सकते हैं।


हालांकि, किसी कारण से, सभी तंत्रिका-बधिर लोग पहली बार इसके साथ नहीं सुनते हैं, उनके मस्तिष्क को नए इनपुट डेटा को समायोजित करने में समय लगता है, इस प्रक्रिया के दौरान मस्तिष्क वास्तव में रिसीवर सिस्टम का निर्माण करता है या इसे विस्तारित करता है, जैसे कि व्यायाम के बाद मांसपेशी बड़ी हो जाती है।



## इलेक्ट्रॉनिक टेलीपैथी:

न्यूरोफोन एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीपैथी मशीन है। कई परीक्षणों से यह साबित होता है कि यह आठवीं कपाल तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका को बायपास करता है, और सीधे मस्तिष्क तक ध्वनि संचारित करता है। इसका मतलब है कि न्यूरोफोन सातवीं या वैकल्पिक इंद्रिय के माध्यम से धारणा को उत्तेजित करता है। सभी श्रवण यंत्र मध्य कान में छोटी हड्डियों को उत्तेजित करते हैं। कभी-कभी जब कान का परदा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो आंतरिक कान की हड्डियों को एक वाइब्रेटर द्वारा उत्तेजित किया जाता है जिसे खोपड़ी के आधार पर कान के पीछे रखा जाता है।

अस्थि चालन दांतों के माध्यम से भी काम करेगा। अस्थि चालन के काम करने के लिए, जैसा कि पहले कहा गया है, कोक्लीअ या आंतरिक कान जो आठवीं कपाल तंत्रिका से जुड़ा है, को पहले काम करना चाहिए। जो लोग तंत्रिका-बधिर हैं वे अस्थि चालन के माध्यम से नहीं सुन सकते क्योंकि आंतरिक कान में तंत्रिकाएँ कार्यात्मक नहीं हैं।



इससे यह साबित होता है कि न्यूरोफोन के माध्यम से ध्वनि धारणा का साधन त्वचा के माध्यम से है न कि हड्डी चालन के माध्यम से। टपट्स यूनिवर्सिटी में पहले एक परीक्षण किया गया था जिसे डॉ. इवाइट वेन बैटेउ ने डिजाइन किया था, जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी डॉल्फिन कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट में फ्लैगनगन के भागीदारों में से एक थे। इस परीक्षण को बीट फ्रीक्वेंसी टेस्ट के रूप में जाना जाता था। यह सर्वविदित है कि दो अलग-अलग आवृत्तियों की ध्वनि तरंगें एक बीट नोट बनाती हैं क्योंकि तरंगें एक-दूसरे के साथ हस्तक्षेप करती हैं।



उदाहरण के लिए, यदि एक ही समय में एक कान में 300 हर्ट्ज़ और 330 हर्ट्ज़ की ध्वनि बजाई जाए तो 30 हर्ट्ज़ की ध्वनि नहीं सुनी जाएगी। यह आंतरिक कान की हड्डी की संरचना में ध्वनि का यांत्रिक योग है। एक और धड़कन है, मस्तिष्क के केंद्र में कॉर्पस कॉलोसम में ध्वनियाँ एक साथ धड़कती हैं।


इस बाइनॉरल बीट का उपयोग मोनरो इंस्टीट्यूट और अन्य द्वारा परिवर्तित ध्वनि तरंगों का अनुकरण करने के लिए किया जाता है।

मस्तिष्क की तरंगों को संकेत पर रोककर और उसका अनुसरण करके, मस्तिष्क को उच्च अल्फा या यहाँ तक कि थीटा मस्तिष्क अवस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकता है।

कॉर्पस कैलोसम मानव ध्वनि बॉक्स।

ये मस्तिष्क अवस्थाएँ रचनात्मकता, स्पष्ट स्वप्न और चेतना की अन्य अवस्थाओं से जुड़ी होती हैं, जिन्हें जागते समय प्राप्त करना मुश्किल होता है। जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वे सभी रचनात्मक लोग, संगीतकार, कलाकार, वैज्ञानिक आदि हैं।

न्यूरोफोन एक शक्तिशाली ब्रेन एन्ट्रेनमेंट डिवाइस है। अगर हम सीधे न्यूरोफोन के माध्यम से अल्फा या थीटा सिग्नल बजाते हैं, तो हम मस्तिष्क को किसी भी वांछित अवस्था में ले जा सकते हैं। बैट्यू का सिद्धांत यह था कि अगर हम न्यूरोफोन इलेक्ट्रोड को इस तरह से रख सकें कि ध्वनि को केवल सिर के एक तरफ से आते हुए महसूस किया जाए, और अगर हम न्यूरोफोन के माध्यम से 300 हर्ट्ज सिग्नल बजाते हैं, अगर हम एक साधारण हेडफोन के माध्यम से 330 हर्ट्ज सिग्नल भी बजाते हैं, तो हमें एक बीट नोट मिलेगा यदि सिग्नल आंतरिक कान की हड्डियों में समाहित हो रहे हों। जब परीक्षण किया गया, तो हम बिना बीट के दो अलग-अलग स्वरों को सुनने में सक्षम थे। इस परीक्षण ने फिर से साबित कर दिया कि न्यूरोफोनिक सुनवाई हड्डी चालन के माध्यम से नहीं थी। जब हमने एक स्टीरियो न्यूरोफोन का इस्तेमाल किया, तो हम एक बीट नोट प्राप्त करने में सक्षम थे जो कि बाइनॉरल बीट के समान है, लेकिन बीट तंत्रिका तंत्र के अंदर हो रही है और हड्डी चालन का परिणाम नहीं है।



न्यूरोफोन मस्तिष्क की बदलती अवस्थाओं में प्रवेश का एक द्वार है। इसका सबसे शक्तिशाली उपयोग मस्तिष्क केंद्रों के साथ सीधे संचार में हो सकता है, जिससे फ़िल्टर या आंतरिक तंत्र को दरकिनार किया जा सकता है जो मस्तिष्क से संवाद करने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकते हैं। यदि हम मस्तिष्क से सीधे ऑडियो संचार के रहस्य को खोल सकते हैं, तो हम दृश्य संचार के रहस्य को भी खोल सकते हैं। त्वचा में रिसेप्टर्स होते हैं जो कंपन, प्रकाश, तापमान, दबाव और घर्षण का पता लगा सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि त्वचा को सही संकेतों के साथ उत्तेजित करें। फ्रैनागन न्यूरोफोनिक शोध जारी रख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में न्यूरोफोनिक ट्रांसमिशन के अन्य तरीके विकसित किए हैं। हमने न्यूरोफोन को भी उलट दिया है और पाया है कि हम जीवित प्रणाली द्वारा उत्पन्न स्केलर तरंगों का पता लगा सकते हैं।

यह पता लगाने की तकनीक वास्तव में डॉ. हिरोशी मोटोयामा द्वारा इस्तेमाल की गई प्रक्रिया के समान है।





निर्माण, दूसरे विभेदक खंड से शोर स्पाइक्स की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है। यहाँ से, शोर स्पाइक्स को विशेष संपर्क इलेक्ट्रोड में पेश किया जाता है, जिनमें से एक को आम तौर पर रखा जाता है



एक माथे पर रखा जा सकता है, जबकि दूसरे को लगभग कहीं भी रखा जा सकता है।

स्क्वायर-वेव क्लिपर सेक्शन जटिल सिग्नल, उनके ओवरटोन और उनके जटिल मॉड्यूलेशन को स्क्वायर वेव में कम कर देता है, जिससे वेव मिक्स की अस्थायी सामग्री तो बनी रहती है लेकिन वेव खुद नहीं। पहला और दूसरा विभेदक उच्च-क्रम विभेदन की अस्थायी सामग्री को बढ़ाता है या फ़िल्टर करता है, यानी, वे सिग्नल के न्यूट्रिनिक और माइंड-फील्ड भागों या पहलुओं की समय कुंजी को बढ़ाने के लिए एक बैंड पास फ़िल्टर इकाई के रूप में काम करते हैं।

जब इन समय स्पाइक्स को पूरे शरीर में स्पंदित वोल्टेज के रूप में पेश किया जाता है, तो वे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट फायरिंग पर सीधे मॉड्यूलेट होते हैं, जो मन-मस्तिष्क-चेतना-जीवन लूप के न्यूट्रिनिक और माइंड-फील्ड घटक चैनलों का प्रत्यक्ष और स्पंदित मॉड्यूलेशन प्रदान करते हैं। इस प्रकार न्यूरोफोन सीधे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में जानकारी इनपुट करता है, जो मन-मस्तिष्क लूप और बाहरी वातावरण के बीच स्थित सभी सामान्य संवेदी प्रणालियों को दरकिनार कर देता है।

दरअसल, मिसौरी विश्वविद्यालय के दो शोधकर्ताओं ने भी इसी तरह की प्रगति की रिपोर्ट दी है। डॉ.

न्यूरोफिज़ियोलॉजिस्ट डोनाल्ड यॉर्क और स्पीच पैथोलॉजिस्ट डॉ. थॉमस जेन्सन ने हाल ही में लगभग चालीस विषयों में विशिष्ट मस्तिष्क तरंग पैटर्न में सत्ताईस शब्दों और अक्षरों की पहचान और डिकोडिंग तथा इन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक पैटर्न को बोले गए शब्द और चुपचाप सोचे गए शब्द दोनों के साथ सहसंबंधित करने की रिपोर्ट दी है। वर्तमान में, डॉ. यॉर्क और डॉ. जेन्सन एक मस्तिष्क तरंग शब्दावली के साथ एक कंप्यूटर को प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि स्ट्रोक पीड़ित के मस्तिष्क के ईईजी की निगरानी और उसे पढ़ा जा सके और स्ट्रोक पीड़ितों की मदद की जा सके, जिन्होंने संवाद करने के लिए अपनी बोलने की शक्ति खो दी है।

पैट प्रलैनागन के न्यूरोफोन ने साबित किया है कि जटिल जानकारी को सामान्य अलगाव बाधाओं को दरकिनार करते हुए सीधे मस्तिष्क और मन में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। डॉ. यॉर्क और जेन्सन ने दिखाया है कि मस्तिष्क तरंग में वास्तव में पहचानने योग्य, डिकोड करने योग्य सूचना अनुरूप होते हैं। लिसित्सिन ने पहले ही शामिल स्वतंत्र चैनलों की संख्या को मापने की रिपोर्ट की है और साइन-वेव सामग्री के विपरीत क्लिप्ड मस्तिष्क तरंगों के महत्व को प्रलेखित किया है।



## न्यूरोवेव सिग्नल विकास का इतिहास

1. एक स्टेप अप ऑडियो ट्रांसफॉर्मर को हाई-फाई एम्पलीफायर से जोड़ा गया था। ऑडियो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज लगभग 1,500 वोल्ट पीक टू पीक था। अनुभव की गई ध्वनि की गुणवत्ता बहुत खराब, अत्यधिक विकृत और बहुत कमजोर थी। सिग्नल को सबसे तेज़ और स्पष्ट माना जाता था जब एम्पलीफायर को ओवर ड्राइव किया जाता था और क्लिप्ड स्क्वायर वेव उत्पन्न किए जा रहे थे। ओ'स्कोप सिग्नल में 40 से 50kHz की आवृत्तियों पर रिंगिंग स्पाइक्स या नम तरंग के दोलन थे। (फ्लैनगन, लाइफ़ मैगज़ीन 14 सितंबर 1962)

2. इसके बाद एक आयाम-मॉड्युलेटेड सिग्नल को एक उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में भेजा गया, जो 20-100kHz रेंज में समायोज्य आवृत्ति के लिए आवृत्ति प्रतिक्रिया में समतल था।

आउटपुट 2,000 वोल्ट पीक-टू-पीक आयाम मॉड्युलेटेड वाहक तरंग थी।

(फ्लैनगन पेटेंट संख्या 3,393,279 (1968))

3. ऑडियो सिग्नल को 50kHz वर्ग तरंग वाहक पर पल्स चौड़ाई में मॉड्युलेट किया जाता है।

आउटपुट को 50 वोल्ट स्क्वायर वेव तक बढ़ाया जाता है। यह सिग्नल पीजो सिरेमिक डिस्क के माध्यम से शरीर पर लगाया जाता है। (लेड ज़िरकोनियम टाइटेनेट) (फ्लैनगन पेटेंट नंबर 3,647,970 (1972))

4. ऑडियो सिग्नल को 45kHz स्क्वायर वेव कैरियर पर पल्स चौड़ाई मॉड्युलेट किया जाता है और फिर डबल डिफरेंशिएट किया जाता है (2 डिफरेंशिएटर सर्किट के माध्यम से लाइन में प्रोसेस किया जाता है)। आउटपुट को 60 वोल्ट RMS तक बढ़ाया जाता है। यह सिग्नल पीजो सिरेमिक डिस्क (रेडियो शेक टाइप) (पीतल की तरफ त्वचा पर, लाल लीड सर्किट से जुड़े होते हैं) के माध्यम से शरीर पर लगाया जाता है।

(विभिन्न शोधकर्ताओं से प्राप्त जानकारी)

5. ऑडियो सिग्नल को अलग करके एक सेक्शन में भेजा जाता है जो सब कुछ स्क्वायर वेव की एक श्रृंखला में क्लिप करता है और फिर 40 वोल्ट पल्स में परिवर्तित होता है जिसे फिर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर (तुलनित्र) के माध्यम से चलाया जाता है। सेंसर इलेक्ट्रोड एक इंच व्यास की प्लेटें हैं जो लीड ज़िरकोनियम टाइटेनेट (पीजो-इलेक्ट्रिक डिस्क) से बनी हैं। (एक्सट्रीमा, यूएस पेटेंट नंबर 4,545,065)

6. ऑडियो सिग्नल को 100kHz वाहक पर मॉड्युलेट किया जाता है और फिर पावर एम्पलीफाइड करके एंटीना को भेजा जाता है। एंटीना के पास वाले लोग इयरफोन के ज़रिए ध्वनि को सुन सकते हैं जबकि दूर वाले कुछ भी नहीं सुन सकते, एंटीना से कोई संपर्क नहीं बनता। (लगभग 1970 के दशक में) लेजर साउंड सिस्टम, इंक., 438 डब्ल्यू. साइप्रस, ग्लेनडेल, सीए 91204. इसके अलावा इंटेलेक्ट्रॉन कॉर्प जो मूल प्रतिबंधित पेटेंट का मालिक है, 432 डब्ल्यू 57वीं स्ट, न्यूयॉर्क, एनवाई, 10036)।

7. एक अन्य इकाई एक लघुकृत हाई-पावर एम्पलीफायर पर आधारित है, जो ऑडियो सूचना को सीधे बढ़ाता है, कोई वर्ग तरंग या वाहक का उपयोग नहीं किया जाता है। सेंसर सिरेमिक बेस पर पीजो-इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली ध्वनि (काफी हाई फिडेलिटी हेडफोन ध्वनि नहीं) आपके मस्तिष्क के मध्य से आती हुई अनुभव होती है, कमोबेश।

## हाइव माइंड्स:


डॉ. निक बेगिच न्यूरोफोन घटना को 2 लोगों के दिमाग के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक 'कॉर्पस कॉलोसम' के रूप में वर्णित करते हैं। कॉर्पस कॉलोसम एक व्यक्ति के मस्तिष्क के 2 गोलार्धों के बीच अर्ध-पारगम्य पुल है। न्यूरोफोन के निर्माण की जटिलताओं के साथ-साथ इसकी जैव-भौतिक अंतःक्रियाशीलता, निक बेगिच द्वारा लिखित पुस्तक, टुवर्ड्स ए न्यू अल्केमी में दी गई है। न्यूरोफोन के साथ यह बिना संपर्क के मस्तिष्क में सूचना का प्रेरण बनाता है (जैसे सिर के चारों ओर तेज-स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि पर्सिंगर का काम)।

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस बियर्डन जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय से परमाणु भौतिक विज्ञानी हैं। वे युद्ध रणनीति के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक हैं, और सोवियत साइकोट्रॉनिक्स अनुसंधान के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। टॉम बियर्डन और प्र्लैनागन ने न्यूरोफोन के माध्यम से दो माइंड लिंक बनाए हैं। ब्रेन माइंड लिंक का विवरण इनर्जी न्यूज़ या न्यूरोफोन रिसर्च जर्नल के बाद के संस्करण में दिया जाएगा। (ये हमारे पास नहीं हैं, अगर कोई उन्हें पा सकता है तो हमें किसी भी जानकारी की एक प्रति दें)।

कर्नल बियर्डन ने एक गणितीय सूत्र विकसित किया है जो दर्शाता है कि लोगों के एक समूह की संयुक्त मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ेगी यदि ये लोग एकात्मक चेतना में जुड़े हुए हैं। लोगों का एक छोटा समूह वास्तव में एक पल में मानव जाति के पूरे पाठ्यक्रम को बदल सकता है, अगर वे चेतना के एकीकृत क्षेत्र में पूरी तरह से जुड़े हुए हों। कर्नल बियर्डन का मानना है कि न्यूरोफोन चेतना को जोड़ने की कुंजी है।



यह लिंकिंग कई तरीकों से की जा सकती है। सोवियत ने स्थापित किया है कि केवल 16 चैनलों वाली एक ईईजी मशीन किसी व्यक्ति की संपूर्ण चेतना को पकड़ सकती है। इसके बाद बस इतना करना है कि मल्टी चैनल न्यूरोफोन के माध्यम से डेटा को दूसरे के दिमाग में फीड किया जाए। न्यूरोफोन तब दो या उससे अधिक लोगों के दिमाग के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पस कोलोसम बन जाएगा।



रूसियों द्वारा प्रयुक्त मस्तिष्क संप्रेषण वाहक प्रणाली (कठफोड़वा प्रयोग)

जैविक रूप से महत्वपूर्ण मॉड्यूलेशन लगभग 10 हर्ट्ज है। पृथ्वी का बैक-ग्राउंड चुंबकीय क्षेत्र लगभग 7.0 से 7.5 हर्ट्ज पर दोलन कर रहा है।

कुछ विशिष्ट ईएलएफ आवृत्तियां तेजी से निष्क्रिय कर सकती हैं या यहां तक कि मार भी सकती हैं, और युद्धकालीन उपयोग के लिए उन आवृत्तियों को पकड़े गए मस्तिष्क में सीधे ही प्रशिक्षण विधियों द्वारा प्रत्यारोपित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए जैसा कि सोवियत वुडपेकर सिग्नल कार्यक्रम में किया गया था।

तो न्यूरोफोन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना खतरनाक क्यों है:

फलैनागन ने ग्यारह वर्ष की आयु में एक निर्देशित मिसाइल डिटेक्टर विकसित किया और अमेरिका को बेचा

सत्रह वर्ष की आयु में मिलिट्री ने अपना एयर पायलट लाइसेंस प्राप्त किया और पेंटागन में थिंक टैंक द्वारा नियुक्त किया गया, और बाद में एनएसए, सीआईए, नासा, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, नौसेना अनुसंधान कार्यालय और अपरंपरागत हथियार और युद्ध विभाग के लिए एबरडीन प्रोविंग ग्राउंड के सलाहकार के रूप में काम किया। फ्लैनेगन के अपने शब्दों में "हमने न्यूरोफोन को भी उलट दिया है और पाया है कि हम जीवित प्रणाली द्वारा उत्पन्न स्केलर तरंगों का पता लगा सकते हैं। पता लगाने की तकनीक वास्तव में जापान में डॉ. हिरोशी मोटोयामा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया के समान है। डॉ. मोटोयामा ने कैपेसिटर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जो कि हम न्यूरोफोन के साथ शरीर के विभिन्न शक्ति केंद्रों से ऊर्जा का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं जिन्हें चक्र के रूप में जाना जाता है।"

इसलिए अब सैनिकों के बीच मूक दोतरफा संचार संभव था और इसे डिकोड नहीं किया जा सकता था, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुरक्षा सेवाएँ राजनेताओं और जासूसों की आवाज़ सुन सकती थीं। MI6 के डॉ. बैरी ट्रॉवर ने मुझे बताया कि उन्होंने माइक्रोवेव ऑडिटरी इफ़ेक्ट का उपयोग करके 1969 में ही ऐसा कर लिया था, यह पेटेंट की पकड़ और MK अल्ट्रा टाइम-लाइन के साथ फिट बैठता है।

अब हम कुछ बहुत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर आते हैं! मूल अमेरिकी पेटेंट # 3,647,970 (5 मार्च 1972) में डॉ. फ्लैनागन कहते हैं, न्यूरोफोन पल्स को तब बढ़ाया जाता है जो एक ट्रांसड्यूसर को चलाता है, ट्रांसड्यूसर मिलिवाट्स का उपयोग करके पानी में पल्स को प्रेरित कर सकता है, पानी में हजारों मील तक संचार करना संभव है,



परमाणु पनडुब्बियों के संचार, शूमान का उपयोग कर एक स्थायी स्केलर तरंग का उपयोग करना अनुनाद। शूमान अनुनाद (एसआर) पृथ्वी के विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र स्पेक्ट्रम के अत्यंत कम आवृत्ति (ईएलएफ) भाग में स्पेक्ट्रम चोटियों का एक समूह है।

माइक्रोवेव उत्सर्जक



शूमान अनुनाद एक वैश्विक विद्युत चुम्बकीय अनुनाद है, जो पृथ्वी की सतह और आयनमंडल द्वारा निर्मित गुहा में बिजली के निर्वहन द्वारा उत्पन्न और उत्तेजित होता है। पृथ्वी के माध्यम से, या किसी अन्य प्रसार माध्यम में। या, यदि वांछित हो, तो ट्रांसड्यूसर को रेडियो या अन्य विद्युत चुम्बकीय तरंग ट्रांसमीटर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो फ्लैनागन ने जो बनाया वह कम ऊर्जा वाला तरीका था

दुनिया भर में संचार करना और स्केलर वेव सिस्टम की मदद से सुरक्षित रहना, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, अगर कोई इस पर ठोकर भी खाए, तो यह टैपिंग शोर की तरह लगेगा और इसका अनुवाद या डिकोड नहीं किया जा सकता।

तब से सीआईए, एनएसए, एमआई6 और कई अन्य सुरक्षा सेवाएं इसी प्रणाली का उपयोग कर रही हैं।



ALL AUDIBLE SOUND COMES FROM POINT OF IMPACT WHICH MAY BE A LIVING THING - PERSON, BIRD, ETC.

ONE SIGNAL IS PURE 200.0 KHZ SOUND

NO AUDIBLE SOUND EMANATES FROM HERE

TWO 200 KHZ AIR TYPE ULTRA SOUND TRANSDUCERS

UP TO SEVERAL HUNDRED FEET

OTHER SIGNAL IS NOMINAL 200 KHZ BUT IS FREQUENCY MODULATED BY VOICE OR OTHER AUDIBLE RANGE INPUT

\*\* CAN ALSO CARRY ULTRA SONIC HYPNOSIS, RESULTING IN UNDETECTABLE HYPNOTIC EFFECTS

**ACOUSTIC HETERODYNE**  
**AMERICAN TECHNOLOGIES CORP.**  
**13114 Evening Creek Dr. S.**  
**San Diego, CA 92128**

<http://home.nasnet/~raven1>

न्यूरोफोन के बाद के संस्करणों में आपको अब वाहक तरंग की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब है कि इसे फोन मास्ट, उपग्रहों, वास्तव में किसी भी डेटा माध्यम का उपयोग करके प्रसारित किया जा सकता है। हाइव माइंड्स के उभरने के साथ यह और भी बदतर हो जाएगा।

सुरक्षा सेवाएँ एक लक्षित व्यक्ति कार्यक्रम स्थापित करती हैं और इस उपकरण का उपयोग उन लक्ष्यों पर किया जाता है। लोकप्रिय सिद्धांत के विपरीत इसका अधिकांश हिस्सा स्थानीय स्तर पर मेसन और ड्रग डीलरों या उनके द्वारा नियुक्त या उनकी मदद करने के लिए धोखा दिए गए निजी जासूसों द्वारा किया जाता है। आप एक सामान्य न्यूरोफोन लें और उसमें एक वाहक तरंग प्रणाली जोड़ें। ऊपर वाले के समान, केवल अंतर यह है कि इसके लिए दो ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता होती है।

अतः लक्षित व्यक्ति पर दो किरणें दागी जाती हैं, ताकि प्रेषण और प्राप्ति के लिए आवश्यक 180 डिग्री चरणबद्ध शिफ्ट सर्किट प्राप्त हो सके।

### माइक्रोवेव श्रवण प्रभाव:

माइक्रोवेव श्रवण प्रभाव, जिसे माइक्रोवेव श्रवण प्रभाव या फ्रे प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, में स्पंदित/मॉड्युलेटेड माइक्रोवेव आवृत्तियों द्वारा प्रेरित श्रव्य क्लिक (या, भाषण मॉड्यूलेशन के साथ, बोले गए शब्द) शामिल हैं। क्लिक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता के बिना सीधे मानव सिर के अंदर उत्पन्न होते हैं। इस प्रभाव की पहली बार रिपोर्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रडार ट्रांसपॉंडर के आसपास काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई थी।


ये प्रेरित ध्वनियाँ आस-पास के अन्य लोगों को सुनाई नहीं देतीं। बाद में पता चला कि माइक्रोवेव श्रवण प्रभाव विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के छोटे तरंगदैर्घ्य वाले भागों के साथ प्रेरित हो सकता है।

शीत युद्ध के दौर में अमेरिकी न्यूरोसाइंटिस्ट एलन एच. फ्रे ने इस परिघटना का अध्ययन किया और

माइक्रोवेव श्रवण प्रभाव की प्रकृति पर जानकारी प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थे। [https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave\\_auditory\\_effect](https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_auditory_effect)

कुछ कर्मचारियों द्वारा स्पंदित माइक्रोवेव विकिरण सुना जा सकता है; विकिरणित कर्मचारी क्लिक या भिनभिनाने जैसी श्रवण संवेदनाओं को महसूस करते हैं। इसका कारण श्रवण तंत्र के कुछ हिस्सों का थर्मोइलास्टिक विस्तार माना जाता है। प्रतिस्पर्धी सिद्धांत इंटरफेरोमेट्रिक होलोग्राफी परीक्षणों के परिणामों को अलग-अलग तरीके से समझाते हैं।

2003-2004 में, वेवबैंड कॉर्प को अमेरिकी नौसेना से एक अनुबंध मिला था, जिसमें उन्होंने एक एमआई सिस्टम डिजाइन करने का काम किया था, जिसे उन्होंने मेडुसा (मॉब एक्सेस डिटरेट यूजिंग साइलेंट ऑडियो) कहा था, जिसका उद्देश्य कर्मियों को दूर से, अस्थायी रूप से अक्षम करना था। ऐसा कहा जाता है कि परियोजना को 2005 में रद्द कर दिया गया था! [https://en.wikipedia.org/wiki/MEDUSA\\_%28weapon%29](https://en.wikipedia.org/wiki/MEDUSA_%28weapon%29)



डॉ. बैरी ट्रॉवर MI6

यह छवि कई सालों से मौजूद है इसलिए मैं इसमें कुछ सुधार करना चाहूँगा, यह एक न्यूरोफोन है जिसका उपयोग किया जाता है और इसे माइक्रोवेव की सीधी किरण के साथ कोकलीया को सुनकर भी किया जा सकता है। एक और बात यह है कि डॉ. बैरी ट्रॉवर 1969 में सोवियत जासूसों को ब्रीफिंग देने के लिए MI6 के लिए माइक्रोवेव ऑडिटरी इफेक्ट का उपयोग कर रहे थे। यह कहने के बाद कि यह नीचे बिल्कुल सही बताता है, यह बस अस्पष्ट और गलत है।

वी2के, वॉयस टू स्कल और माइक्रोवेव ऑडिटरी इफेक्ट, वॉयस टू स्कल रेडियो संचार का एक रूप है, जो एमसी (लक्षित व्यक्ति हैंडलर) को सीधे मस्तिष्क तक बातचीत संचारित करने में सक्षम बनाता है।

ध्वनि (जैसा कि पीड़ितों ने बताया) सिर के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, ध्वनि तरंगें वॉकी-टॉकी की तरह मौखिक बातचीत को प्रसारित करती हैं।

रेडियो सिग्नल की ध्वनि दूरी और तीव्रता सिर के अभिविन्यास के बावजूद समान रहती है। इसके अनुप्रयोग के पीछे का विज्ञान MI6 द्वारा प्रतिष्ठित है, लेकिन अब इस में इसका खुलासा किया गया है


दस्तावेज़। सच्चाई यह है कि मनुष्य अपने बाहरी कानों की सहायता के बिना बोले गए शब्दों में खुद को सोच सकता है और ध्वनि को समझ सकता है, और यह मस्तिष्क की जटिलता है जो इसे सशक्त बनाती है। जब मानव कान बाहरी स्रोतों से ध्वनिक ध्वनि आवृत्तियों का पता लगाते हैं तो ध्वनि तरंगें बाहरी कान के माध्यम से फ़नल हो जाती हैं, कान के परदे से टकराती हैं और तंत्रिका आवेगों में बदल जाती हैं, जो मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क द्वारा ध्वनि/मौखिक भाषण के रूप में डिकोड की जाती हैं जैसा कि अधिक में वर्णित है

**Image of microwave radiation is pulsed into the house. "Abuse of microwave weapons against civilians inside homes."**



**Modded or modified satellite dish for radiating microwaves**

**Microwave in the apartment and the antenna for radiating micro waves in the flower box.**



**Microwave magnetron device torturing from the briefcase in car.**



**Generator / condenser / flat antenna for radiating microwaves.**



**NOTE: NEIGHBORS ARE TOLD IT IS NON LETHAL TECHNOLOGY, BUT NON-STOP ATTACKS, WHICH MANY REPORT LEAD TO SLOW KILL FROM ONGOING RADIATION. THE EFFORTS ARE OVERSEEN FROM OPERATION CENTERS VIA REAL TIME / SATELLITE SURVEILLANCE.**

**THIS IS WHY SO MANY NEIGHBOR HOMES ARE SET UP USING THIS TECHNOLOGY IN THE TARGETED INDIVIDUALS COMMUNITY.**


Weitere Informationen: [www.mikrowellenterror.de](http://www.mikrowellenterror.de)  
Interessengemeinschaft der Opfer von Elektro-Waffen

11/2005

V.i.S.d.P. Dipl.-Ing. R. Zotzmann, Dipl.-Ing. H. Zotzmann  
Eulenstr. 5 - 17192 Waren (Müritze)

विस्तार से पहले.

जब MCs V2k वॉयस को स्कल तक पहुंचाते हैं, तो वे एक माइक्रोफोन में बोलते हैं, जो मौखिक भाषण/ध्वनि संकेतों को एनकोडेड इलेक्ट्रिकल पल्स में बदल देता है जो न्यूरोफोन तकनीक के समान है। ये रेडियो-फ्रीक्वेंसी पल्स श्रवण तंत्रिका पर निर्देशित होते हैं (मानव को बायपास करते हुए)



**Fig. 2. Microwave susceptance area in brain.**



कान) से सीधे मस्तिष्क तक ध्वनि पहुंचती है, जो विद्युत तरंगों को समझने योग्य बोले गए शब्दों में परिवर्तित कर देती है।

और ध्वनि। यह सुनिश्चित करना कि एनकोडेड विद्युत स्पंदन श्रवण तंत्रिका को सीधे प्रभावित करते हैं, यह गारंटी देता है कि केवल इच्छित पीड़ित ही संपर्क सुन सकता है और रेडियो डीजे (डिस्क जॉकी) की तरह, एमसी वॉल्यूम बढ़ा या घटा सकते हैं और कई मील दूर किसी विषय के साथ संवाद कर सकते हैं।

शिक्षाविद जोसेफ सी शार्प और डॉ ए फ्रे वास्तव में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में अपने कार्यकाल के दौरान श्रवण तंत्रिका पर ध्वनि-संशोधित माइक्रोवेव संचारित करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। श्रवण तंत्रिका के माध्यम से ध्वनि का संचरण बीसवीं शताब्दी के मध्य से ही प्रचलित है और सुनने में कठिनाई वाले विषयों में भी सफल साबित हुआ है। ESB (मस्तिष्क की विद्युत उत्तेजना) का उपयोग लक्षित विषयों को उत्तेजना की आवृत्ति और आयाम के आधार पर ध्वनि को समझने में सक्षम बनाता है।



DEPARTMENT OF THE AIR FORCE  
HEADQUARTERS 311TH HUMAN SYSTEMS WING (AFMC)  
BROOKS AIR FORCE BASE TEXAS

25 JAN 7600

MEMORANDUM FOR MARGO P. CHERNEY  
1419 LATTA RD.  
ADA, OK 74820


FROM: 311 HSW/JA  
8005 Chennault Rd.  
Brooks AFB TX 78235-5313

SUBJECT: Freedom of Information Act (FOIA) Request

1. This is in response to your FOIA request dated 27 Sep 99, case number 00-0009-HS, for copies of Communicating Via the Microwave Auditory Effect: Awarding Agency: Dept of Defense SBIR Contract number: F41624-95-C-9007 as specified in your letter.
2. The requested information is fully denied under 5 U.S.C. 552(b)(1), and DoD Regulation 5400.7/Air Force Supplement, paragraph C3.2.1.1, *Classified Records* because unauthorized disclosure of the requested information could reasonably be expected to cause damage to national security. The information is classified pursuant to Executive Order 12958.
3. Should you decide that an appeal to this decision is necessary, write to the Secretary of the Air Force within 60 calendar days from the date of this letter. Include in your appeal any reason for reconsideration and attach a copy of this letter. The appeal should be forwarded to:

Secretary of the Air Force  
THRU: 311 CS/SCSD  
8101 Arnold Street  
Brooks AFB TX 78235-5367

4. The cost of processing this request is waived.

  
RICHARD E. PRINS, Colonel, USAF  
Staff Judge Advocate

माइक्रोवेव श्रवण प्रभाव के श्रवण लक्षणों में लगातार भिन्नभिन्नाना, क्लिक और जिसे 'कानों में बजना' कहा जाता है, शामिल हैं। यदि लंबे समय तक उपयोग किया जाता है तो शोर में तीव्रता और भिन्नता एकाग्रता की कमी, परेशानी और अत्यधिक चिड़चिड़ापन का कारण बनती है।

वॉयस टू स्कल का उद्देश्य सैनिकों के लिए था, ताकि मुख्यालय में असीमित संचार सुनिश्चित हो सके, जिससे पारंपरिक इयरपीस/माइक्रोफोन हेडगियर का परित्याग संभव हो सके, जो युद्ध के मैदान में एक दृश्यमान लक्ष्य होता है।





वॉयस टू स्कल, मानसिक रोगियों, एलियन अपहरणकर्ताओं, चुड़ैलों और मनोरोग सिज़ोफ्रेनिया रोगियों, भगवान की आवाज़ सुनने वाले लोगों, लोगों को मारने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में लाता है क्योंकि सिर में एक आवाज़ ने उन्हें भी बताया है, जो दावा करते हैं कि वे एलियंस से बात कर सकते हैं, या भूतों से संपर्क कर सकते हैं और अक्सर शैतान के साथ संबंध बना सकते हैं। इन सभी लोगों को दुनिया की हर सरकार के खिलाफ सहस्राब्दी के मुकदमे के लिए हर नागरिक द्वारा लक्षित किया जाना चाहिए।

यह अहसास कि MCs प्रभावी रूप से किसी इंसान के जीवन में खुद को शामिल कर सकते हैं और अलौकिक शक्तियों के रूप में पेश आ सकते हैं, हास्यास्पद लगता है। यह स्पष्ट है कि खुफिया एजेंटों और चिकित्सकों ने इस कौशल में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है और MCVs की बढ़ती संख्या इसकी तैनाती की पुष्टि कर रही है।

यह यूके सरकार का दस्तावेज़ है:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17495664>

स्वास्थ्य भौतिकी. 2007 जून;92(6):621-8.

मनुष्यों और पशुओं द्वारा माइक्रोवेव स्पंदों की सुनवाई: प्रभाव, तंत्र और सीमाएं।

लिन जेसी1, वांग जेड. लेखक जानकारी

अमूर्त

माइक्रोवेव पल्स की सुनवाई वायुजनित या अस्थि-संचालित ध्वनि ऊर्जा का एक अनूठा अपवाद है जो सामान्य रूप से मानव श्रवण धारणा में पाई जाती है। श्रवण तंत्र आमतौर पर श्रव्य आवृत्ति रेंज में वायुजनित या अस्थि-संचालित ध्वनिक या ध्वनि दबाव तरंगों पर प्रतिक्रिया करता है।

लेकिन माइक्रोवेव पल्स की सुनवाई में विद्युत चुम्बकीय तरंगें शामिल होती हैं जिनकी आवृत्ति सैकड़ों मेगाहर्ट्ज से लेकर दसियों गीगाहर्ट्ज तक होती है। चूंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें (जैसे, प्रकाश) देखी जा सकती हैं लेकिन सुनी नहीं जा सकतीं, इसलिए माइक्रोवेव पल्स की श्रवण धारणा की रिपोर्ट एक साथ आश्चर्यजनक और दिलचस्प थी। इसके अलावा, यह निरंतर-तरंग माइक्रोवेव विकिरण से जुड़ी प्रतिक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत थी।

प्रायोगिक और सैद्धांतिक अध्ययनों से पता चला है कि माइक्रोवेव श्रवण घटना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के श्रवण तंत्रिका-शारीरिक मार्गों के साथ श्रवण तंत्रिकाओं या न्यूरोन्स के साथ सीधे माइक्रोवेव पल्स की बातचीत से उत्पन्न नहीं होती है। इसके बजाय, माइक्रोवेव पल्स, सिर में नरम ऊतकों द्वारा अवशोषित होने पर, ध्वनिक दबाव की एक थर्मोइलास्टिक तरंग लॉन्च करता है जो हड्डी चालन द्वारा आंतरिक कान तक जाती है। वहां, यह सामान्य सुनवाई के लिए शामिल उसी प्रक्रिया के माध्यम से कोक्लीयर रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है।

**Microwave Voice-to-Skull Success, Announced 1974**

**American Psychologist**  
Journal of the American Psychological Association  
Volume 30 March 1975 Number 3

gered. By radiating themselves with these "voice-modulated" microwaves, Sharp and Grove were readily able to hear, identify, and distinguish among the 9 words. The sounds heard were not unlike those emitted by persons with artificial larynxes. Communication of more complex words and of sentences was not attempted because the averaged densities of energy required to transmit longer messages would approach the current 10 mW/cm<sup>2</sup> limit of safe exposure. The capability of communicating directly with a human being by

This article is based on materials presented in a seminar to the faculties of Psychology and Engineering at the University of Utah (Salt Lake City, Utah) on August 21, 1974. The author's research program is supported by the Veterans Administration and by U.S. Public Health Service Grant FD00650. Acknowledged in the preparation of the manuscript are E. L. Wike and C. L. Sheridan, for a critical reading; Kay Wahl, for artwork; and Lynn Bruetsch and Virginia Florez, for typing. I also thank John Osephchuk of the Raytheon Corporation for his searching criticism of the manuscript; our opinions differ, his advice is appreciated.

Requests for reprints should be sent to Don R. Justesen, Laboratories of Experimental Neuropsychology, Veterans Administration Hospital, Kansas City, Missouri 64128. The author is also at the Department of Psychiatry, Kansas University Medical Center, Kansas City, Kansas 66103.

उत्तक तापन के अलावा, माइक्रोवेव श्रवण प्रभाव माइक्रोवेव विकिरण का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत जैविक प्रभाव है, जिसके साथ बातचीत का एक ज्ञात तंत्र है: थर्मोइलास्टिक सिद्धांत। इस पेपर में माइक्रोवेव श्रवण की घटना, तंत्र, शक्ति की आवश्यकता, दबाव आयाम और श्रवण सीमा पर चर्चा की गई है। वायरलेस संचार क्षेत्रों और चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) कॉइल के लिए मानव जोखिम पर विशेष जोर दिया गया है।

मेरे पास कई वैज्ञानिक दस्तावेज हैं जो हर पहलू पर प्रकाश डालते हैं, मैं इन्हें टीआईएफ वेबसाइट पर भी जोड़ूंगा, इस विषय पर मुफ्त पुस्तकें भी हैं जिन्हें मैं जोड़ूंगा।

इस दस्तावेज़ के समर्थन में इतने सारे साक्ष्य हैं कि यह अब तक का सबसे उजागर रहस्य होना चाहिए, कोई भी इसे आसानी से और सस्ते में बना सकता है, निश्चित रूप से सरकार बड़ी योजना बना रही है और

सभी को हेरफेर करना? मेरा शोध कहता है कि सरकारों में बहुत कम लोग जानते हैं कि सुरक्षा सेवाओं में क्या चल रहा है और वे उनसे सच्चाई छिपाते हैं, इसलिए लक्ष्य सुरक्षा सेवाएँ हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा है, इन्हें मेसन्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिनके पास सभी सांसदों के बारे में जानकारी होती है ताकि वे कार्य करना बंद कर सकें। अब इन पागल बेवकूफों के बजट को छीनने का समय आ गया है जिन्हें पता ही नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं।



## तो फिर अगला कदम क्या है?

सभी सरकारें बड़ी योजना बना रही हैं और सभी अपने नागरिकों के खिलाफ सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं, यह एक अपराध है और नागरिकों को कार्रवाई करने की अनुमति देता है, अगर कोई कानून और व्यवस्था नहीं है और कोई न्याय नहीं है तो निश्चित रूप से अराजकता होगी। टीआईए का उद्देश्य इसे रोकना और सरकारों और सुरक्षा सेवाओं को साफ-साफ सामने आने और लक्षित लोगों को भुगतान करने के लिए मजबूर करना है।

अल्पावधि में टारगेटड इंडिविजुअल्स एसोसिएशन एक ऐसा उपकरण बनाएगा जो सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, हम पहले से ही ऐसा करने के दो तरीके जानते हैं, एक है फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट जैमर का उपयोग करना, दूसरा है काउंटर सिस्टम का उपयोग करना जो आने वाले सिग्नल को पूरी तरह से नकार देता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पर V2k का कौन सा संस्करण इस्तेमाल किया जा रहा है। हम पहले से ही समझते हैं कि इन उपकरणों को कैसे बनाया जाता है और जैसे ही हमारे पास जानकारी होगी हम उसे प्रकाशित करेंगे या उपकरण उपलब्ध कराएंगे।

हमें सिग्नल को ब्लॉक करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, क्योंकि निकट भविष्य में, जो वर्तमान में लक्षित व्यक्तियों के लिए यातना के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वह हमारी वर्तमान फोन प्रणाली की तरह एक सामान्य सिंथेटिक टेलीपैथी प्रणाली बन जाएगा, और न्यूरोफोन के विज्ञान के माध्यम से मैंने जो सीखा है, उसके अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि इसमें दृश्य और ध्वनि दोनों होंगे।

V2k वॉयस टू स्कूल डिवाइस का इस्तेमाल उस व्यक्ति की अनुमति के बिना करना पहले से ही अवैध है जिस पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नई तकनीक को फलने-फूलने के लिए इसे लागू किया जाना चाहिए। गैंग स्टॉकिंग में जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है और उसकी मृत्यु हो सकती है तथा कैंसर और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। मेरे पास ऐसे वैज्ञानिक शोधपत्र हैं जो इसका समर्थन करते हैं और डॉ. जॉन हॉल हमें आगे के रास्ते के बारे में सलाह दे रहे हैं।

तो यह व्यक्ति पर हमला है, हत्या का प्रयास ऐसे आरोप हैं जो लक्षित व्यक्तियों पर लगाए गए हैं एसोसिएशन वी2के गैंग स्टॉकिंग के सभी संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो ज्यादातर मामलों में किया जा रहा है

स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें इसमें शामिल किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि यह अवैध नहीं है। हम जानते हैं कि राजमिस्त्रियों ने गैंग स्टॉकिंग की शुरुआत की, जो मूल रूप से रिंग फेंसिंग के रूप में शुरू हुई, जहाँ उन्होंने स्थानीय अपराधियों और ड्रग डीलरों का इस्तेमाल उन लोगों को लक्षित करने के लिए किया जिनके साथ उनका मतभेद था या वे उनका व्यवसाय चुराना चाहते थे।

यह अब नियंत्रण से बाहर हो चुका एक बड़ा व्यवसाय है जिसमें ड्रग माफिया शामिल हैं, जैसा कि मेरे मामले में हुआ, जिसे फ्रीमेसन चलाते हैं जिन्होंने मेरा व्यवसाय चुरा लिया और मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही किया जो उन्होंने जूलियन असांजे के साथ किया था, उन्होंने मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए एक झूठा मामला बनाया क्योंकि उन्होंने 4 बिलियन पाउंड का मेरा व्यवसाय चुरा लिया था।

गैंग स्टॉकिंग के बारे में मुझे बताने वाला पहला व्यक्ति एक वरिष्ठ मेसन था, उसने दूसरों के गैंग स्टॉकिंग में शामिल होने पर आपत्ति जताई और इसके कारण वह एक लक्षित व्यक्ति बन गया, मैं पहले उसे स्टेन कमन्स के नाम से जानता था जो मेसन कंट्रॉल का एक विपर्यय निकला! उसने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने उसका फोन चुरा लिया था, उसका सारा व्यवसाय चुरा लिया था, उसके सभी पड़ोसियों से झूठी कहानियाँ बताई थीं, प्रक्रिया के विस्तृत विवरण के लिए TIA वेबसाइट पर मेसन गैंग स्टॉकिंग देखें।

यह यूरोपीय संघ में पहले से ही माइक्रोवेव उत्सर्जन कानून और विकिरण उत्सर्जन कानूनों का दुरुपयोग है। हम उन सभी लोगों के संपर्क में हैं जिन्होंने उपकरणों का आविष्कार किया है और जिन लोगों ने सुरक्षा एजेंसियों से क्षेत्र में उनका उपयोग किया है और ये लोग हमारी पहली क्लास एक्शन में सबूत देंगे

इसकी तह तक जाना होगा। हम अन्य समूहों के साथ मिलकर भी संयुक्त प्रयास कर सकते हैं।



वे किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को अपना निशाना बनाते हैं, मैं स्वतंत्र सोच रखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जैसे संगीतकार, कलाकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक और कोई भी व्यक्ति जो उनके बारे में बोलता है।

मेसन ने कई सालों तक रिंग-फेंसिंग और गैंग स्टॉकिंग के जरिए लोगों को निचले स्तर के अपराधियों का इस्तेमाल करके पकड़ा, यह खाद्य श्रृंखला में ऊपर तक पहुँच गया और अब यह दुनिया के माफियाओं के लिए बड़ा कारोबार बन गया है, हाल ही में, मेरे मामले में, ब्रिटिश ड्रग माफिया जो स्पेन में मेसन लॉज से लेकर सड़क पर रहने वाले लोगों तक चलाए जाते हैं। मेसन दुनिया भर में ड्रग्स का व्यापार चलाते हैं, सुरक्षा सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए जो सभी मेसन हैं और अब लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

यदि आप एक लक्षित व्यक्ति हैं और एसोसिएशन में शामिल होते हैं और हमसे बात करते हैं, तो आप दुनिया की हर सरकार और सुरक्षा सेवा, मेसन और नाटो जैसे पहचाने गए अन्य लोगों के खिलाफ हमारी कानूनी कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। इन सभी संगठनों और सरकारों पर

लगाम लगाने की जरूरत है!

वे बेकाबू और अनियंत्रित पागल हैं जो अपने या अपने प्रतिष्ठान के समर्थकों का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए झूठे धर्मयुद्ध पर हैं। अब हम डिवाइस बना सकते हैं और इसे अदालत में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए यह सब खत्म हो गया है! अब बस सवाल यह है कि उन्हें कब गिरफ्तार किया जाता है!

यह मत समझिए कि राजनेताओं और अन्य लोगों को पता है, सुरक्षा सेवाएं सच्चाई छिपाती हैं, उन्हें जल्द ही इतने सारे कानूनी मामलों का सामना करना पड़ेगा कि उन्हें बिल का भुगतान करने के लिए उन देशों को बेचना पड़ेगा जहां वे रहते हैं।

टार्गेटेड इंडिविजुअल्स एसोसिएशन से जुड़ें और दुनिया को बदलने में हमारी मदद करें। एक दुनिया एक समुदाय! [www.targeted-individuals.co.uk](http://www.targeted-individuals.co.uk)

इस लेख के निर्माण में उनकी खुलेपन और मदद के लिए डॉ पैट्रिक फ़्लैनागन का धन्यवाद। डॉ बैरी ट्रॉवर MI6, डॉ निक बेगिच, रॉबर्ट डंकन CIA, डॉ जॉन हॉल, मैगनस ओल्सन, विलियम बिन्नी NSA, किर्क विबे NSA, इवाइट मैगम, अल्फ्रेड लैम्ब्रेमॉट वेबरे का धन्यवाद। जिन्होंने मुझसे बात की और तकनीक को एक साथ रखने के लिए आवश्यक समझ के लिए जानकारी प्रदान की। अब हम डिवाइस बना सकते हैं और इसे अदालत में प्रदर्शित कर सकते हैं।



यूआरएल:

[http://www.targeted-individuals.co.uk/neurophone\\_support\\_information\\_1](http://www.targeted-individuals.co.uk/neurophone_support_information_1)

[http://www.targeted-individuals.co.uk/neurophone\\_support\\_information\\_2](http://www.targeted-individuals.co.uk/neurophone_support_information_2)

<http://www.rexresearch.com/flanagan/flanagan2.html>

<http://www.rexresearch.com/flanagan/neuroph.htm>

V2k (आवाज़ से खोपड़ी तक) 28/03/2017

## लक्षित व्यक्ति संघ - लेखक: गैरी ओवेन्स

श्री गैरी ओवेन्स ने संकलित लेख लिखा और प्रौद्योगिकी का विश्लेषण किया, हमने प्रौद्योगिकी का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक प्रत्येक सूचना को एकत्रित करने और संकलित करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक स्रोत का उपयोग किया, हमने सूचना के स्रोतों को नीचे सूचीबद्ध किया है, यदि कोई छूट गया हो तो हमें बताएं और हम उसमें संशोधन करेंगे।



**TIA**

**TARGETED INDIVIDUALS ASSOCIATION**

Together Our Voices Will Be Heard!

We are lobbying every Government in the world to ban V2K (Voice to Skull), Gang Stalking, DEW (Direct Energy Weapons) & Mind Control!

If you're a Targeted Individual, you need to join with us, together we will Beat this! We are united in the fight, The TIA will take the fight To their doorstep, help us end it now!

[www.targeted-individuals.co.uk](http://www.targeted-individuals.co.uk)

The banner features a blue ribbon with the text 'Targeted Individuals Association' and a background of a digital cityscape with glowing lines and data points.

